



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1978/माघ 21, 1899

No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(काष्ठ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 73(अ)/भा० व०/ई० :—ई० (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) के अधीन घणित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, ई० की आधारिक न्यूनतम कीमत 8.50 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर, जो कि 8.5% या उससे कम वसूली से सहबद्ध है, जिसके साथ 8.5% से अधिक की प्रत्येक 0.1% की वसूली की वृद्धि पर 10 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, हमसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रक्रिया वाले ई० के कारखाने के स्वामी द्वारा या उसके

अधिकतमों द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त ईख के लिये संदेय होगी किन्तु ऐसा उक्त प्रादेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिये संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईख की रुपये में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
1.	नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि० पल्से, तालुका तथा जिला नासिक (महाराष्ट्र)	10.80
2.	मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काकासाहेब नगर, पोस्ट रनवाड, तालुका नफाद, जिला नासिक (महाराष्ट्र)	10.80
3.	जय भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गेवराई, जिला भीर (महाराष्ट्र)	10.60

[सं० 3/17/76-श० सी० (खण्ड 4)]
सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव (श०)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 1978.

G.S.R. 73(E)/ESS. COM./SUGARCANE.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to various factors mentioned under sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations, as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 8.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 10 paise per quintal for every 0.1 per cent, increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or his agents for sugarcane delivered at the gate of his factory or at any purchasing centre until the 30th September, 1978 subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1.	Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Palse, Taluka and Distt. Nasik (Maharashtra)	10.80
2.	M/s. Karamveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kakasaheb Nagar, Post Ranwad, Taluka Naphad, Distt. Nasik (Maharashtra)	10.80
3.	M/s. Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gevrai, Distt. Bhir (Maharashtra).	10.60

[No. 3/17/76-SPY (Vol.IV)]
C. N. RAGHAVAN, Joint Secy. (Sugar)